

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 331*
(21 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण

*331. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत अगले चरण का कार्य आरंभ करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बिहार के विशेषकर भागलपुर जिले के गांवों सहित इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत बिहार के भागलपुर जिले में गांवों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लोगों को आवास कब तक आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) बिहार के भागलपुर जिले में आगामी तीन वर्षों में अगले चरण के अंतर्गत कितने आवास आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है तथा उक्त योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों के दौरान जिले में आवास प्राप्त कर चुके लोगों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 21.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या) 331* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

बिहार राज्य सरकार ने बिहार के भागलपुर जिले में पीएमजीएवाई -जी के अंतर्गत गांवों के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। पीएमएवाई -जी के अंतर्गत बिहार के भागलपुर जिले के 16 ब्लॉकों की 242 ग्राम पंचायतों में अंतिम रूप से निर्धारित किए गए गांवों की कुल संख्या 1911 है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता, पिछले वर्षों के दौरान आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्ताव के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है। वार्षिक लक्ष्यों के आवंटन के बाद राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आगे विभिन्न जिलों /ब्लॉकों/गांवों में लाभार्थियों को लक्ष्यों का आवंटन स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) में पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय ने राज्य की आवास+ सूची से 11,49,947 सहित बिहार राज्य को कुल 39,25,659 का लक्ष्य आवंटित किया है।

दिनांक 16.12.2021 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य और भागलपुर जिले का चरण - वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(इकाई संख्याप में)

राज्य/जिला	चरण-I (वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक)		चरण-II (वर्ष 2019-20 से 16.12.2021 तक)	
	लक्ष्य	बनाए गए मकान	लक्ष्य	बनाए गए मकान
बिहार	11,76,617	6,09,963	27,49,042	16,18,297
भागलपुर	25,014	12,928	77,730	45,628
